

मसाले

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
धनिया (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	7384.67	7461.33	7580.67	7657.33	7776.67	मंदी
धनिया (मई)	19-मई-24	7554.67	7613.33	7680.67	7739.33	7806.67	मंदी
जीरा (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	22370.00	22630.00	23040.00	23300.00	23710.00	मंदी
जीरा (मई)	19-मई-24	22190.00	22530.00	22890.00	23230.00	23590.00	मंदी
हल्दी (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	16059.33	16190.67	16395.33	16526.67	16731.33	मंदी
हल्दी (जून)	20-जून-24	16514.00	16628.00	16824.00	16938.00	17134.00	मंदी

तिलहन एवं खाद्य तेल

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
कैस्टरसीड (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	5854.00	5880.00	5908.00	5934.00	5962.00	मंदी
कैस्टरसीड (मई)	19-मई-24	5795.00	5830.00	5875.00	5910.00	5955.00	मंदी

अन्य कमोडिटी

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
कपास (अप्रैल-24)	30-अप्रैल-24	1499.00	1506.00	1515.00	1522.00	1531.00	मंदी
कोकूड (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	2459.33	2485.67	2527.33	2553.67	2595.33	मंदी
कोकूड (मई)	19-मई-24	2479.00	2506.00	2548.00	2575.00	2617.00	मंदी
ग्वारसीड (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	5171.33	5209.67	5264.33	5302.67	5357.33	मंदी
ग्वारसीड (मई)	19-मई-24	5261.67	5300.33	5356.67	5395.33	5451.67	मंदी
ग्वारगम (अप्रैल)	19-अप्रैल-24	10184.67	10289.33	10444.67	10549.33	10704.67	मंदी
ग्वारगम (मई)	19-मई-24	10323.00	10430.00	10592.00	10699.00	10861.00	मंदी
मेंथा ऑयल(अप्रैल)	30-अप्रैल-24	891.27	898.33	908.17	915.23	925.07	मंदी
मेंथा ऑयल(मई)	31-मई-24	905.73	912.67	920.33	927.27	934.93	मंदी

**One has to follow the trend and see the price only at closing. This is not for Intra day trading.

कृषि कमोडिटीज आउटलुक

मसाले

नई फसल की बढ़ती आवक के दबाव से हल्दी की कीमतें दबाव में रहीं। अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में कम खरीददारी के कारण साप्ताहिक आधार पर हल्दी की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट हुई है। हाल के समय में कमजोर मांग बड़ी चिंता का विषय रही है क्योंकि स्टॉकिसट सुस्त निर्यात पूछताछ के मद्देनजर थोक खरीददारी से बच रहे हैं। नया आधिकारिक निर्यात आंकड़ा बाजार को दिशा देगा क्योंकि निर्यात पूछताछ को देखते हुए ऐसा लगता है कि फरवरी-मार्च 24 में निर्यात कम रहने की संभावना है। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। लेकिन हाजिर कीमतों में गिरावट सीमित रही है क्योंकि निजामाबाद बाजार में यह केवल 2% कम होकर 15640 पर पहुंच गई। हाजिर और वायदा कीमतों के बीच अंतर 1000 के करीब हैं और जल्द ही शॉर्ट कवरींग की उम्मीद के कारण कीमतें बढ़ने की संभावना है। कम उत्पादन अनुमान के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट सीमित रहने की संभावना है। वर्ष 2024 में पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 14% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। **हल्दी (अप्रैल) वायदा की कीमतें 16400-17200 के दायरे में करोबार कर सकती है।**

निर्यात मांग में बढ़ोतरी होने से जीरा वायदा कीमतों में बढ़त के साथ कारोबार होने की संभावना है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। बंपर उत्पादन की संभावनाओं और नई फसल की शुरुआत से बढ़त सीमित होने की संभावना है। गुजरात और राजस्थान में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण कटाई गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। वर्ष 2024 में भारत में जीरा उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। **जीरा की कीमतें 21500-25000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।**

बाजार में बिकवाली के दबाव के कारण धनिया की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ नई फसल की बढ़ती आपूर्ति से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। शुष्क मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान पूरे भारत में चल रही कटाई का समर्थन करेगा जिससे भारत में आपूर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन, मजबूत निर्यात मांग कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक देगी। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। **धनिया की कीमतें 7300-7800 के दायरे में रहने की संभावना है।**

अन्य कमोडिटीज

आईसीई में कॉटन की कीमतों में नरमी के कारण कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना है। व्यापारियों ने कहा कि आईसीई कॉटन में लगातार गिरावट के बाद घरेलू कपास की कीमतों में कमी आई है। यूएसडीए ने भारत के लिए अनुमानित खपत में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर कपास की खपत का अनुमान 155.80 मिलियन गांठ से बढ़ाकर 156.39 मिलियन गांठ कर दिया है। यूएसडीए ने अपने नवीनतम अनुमान में भारतीय कपास स्टॉक के अनुमान को 15.77 मिलियन गांठ से घटाकर 15.64 मिलियन गांठ कर दिया है। अमेरिकी कपास की कीमतों में गिरावट की तुलना में भारतीय कपास की कीमतों में गिरावट कम है। **एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 59500-60500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1490-1540 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

बाजार में बिकवाली के दबाव के कारण ग्वार सीड वायदा कीमतों में गिरावट की संभावना है। आगामी सीजन के लिए बेहतर आपूर्ति की संभावनाओं के बीच कम मांग के मद्देनजर सबसे सक्रिय मई कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनी है। फसल के लिए अनुकूल दिख रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुरुआती अनुमानों के मद्देनजर बाजार भागीदार मुनाफावसूली कर सकते हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, भारत में 2024 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमानकर्ता ने कहा कि जून और सितंबर के बीच मानसून की वर्षा लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 102 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिसमें +/- 5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि होगी। राष्ट्रव्यापी, एलपीए के 96 और 104 प्रतिशत के बीच कुल मानसून वर्षा को सामान्य माना जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मानसून वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी पर्याप्त वर्षा होने की उम्मीद है। ग्वारगम के बढ़ते निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों में बड़ी गिरावट पर लगाम लगने की संभावना है। आवक सामान्य से कम रही है जिससे बड़ा नुकसान सीमित रहेगा। जनवरी-24 में ग्वार गम का निर्यात सालाना 30% बढ़कर 20.05 हजार टन हो गया। **ग्वारसीड की कीमतों को 5000 रू पर सपोर्ट मिल सकता है जबकि 5500 पर रेजिस्टेंस रह सकता है जबकि ग्वारगम की कीमतों के 10000-11000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

कीमतों में हाल ही में गिरावट के बाद उभरती मांग के कारण मेंथा ऑयल की कीमतें बढ़ने की संभावना है। कम आपूर्ति और कमजोर उत्पादन अनुमान से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। मेंथा का क्षेत्रफल साल-दर-साल कम से कम 10% कम हुआ है, जिससे उत्पादन में साल-दर-साल कम से कम 7%-8% की गिरावट आएगी। भारत ने पिछले वर्ष 2016.7 टन की तुलना में अप्रैल 23-जनवरी 24 के दौरान लगभग 1709.2 टन मेंथा तेल का निर्यात किया। **मेंथा ऑयल की कीमतें 930 पर मजबूत रेजिस्टेंस के साथ 895 रू पर सपोर्ट ले सकती है।**

घरेलू बाजार में कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पेरार्ड मांग धीमी हो गई है। कैस्टर मील के सुस्त निर्यात से भी कीमतों पर दबाव पड़ेगा। **अरंडी वायदा की कीमतों के 5700-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A/Wing 401/402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशंसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रॉकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कमिटेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियाँ/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एनएच द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशिष्ट कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उदरय, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश का वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इन्का अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।